

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014-15/85/

दिनांक: 10 मार्च 2014

**विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के MISSION FLEXIPOOL कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अवमुक्त/स्वीकृत की गयी धनराशियों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में संलग्न फांट की सीमा तक की धनराशि को दिनांक 01.04.2014 को जनपद स्तर पर उपलब्ध अनकमिटेड अवशेष धनराशि से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिन जनपदों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है उनको राज्य स्वास्थ्य समिति से धनराशि अवमुक्त की गई है। जनपदों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशियों को संलग्न फांट की सीमा तक का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध कुल अनकमिटेड अनस्पेन्ट धनराशि से मिशन निदेशक/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रेषित विस्तृत व्यय संबंधी दिशा निर्देशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

क्रम संख्या	पूल	कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नं०	गतिविधि/ एफ0एम0आर0 मद संख्या	अनुमोदन की तिथि	कुल अवमुक्त/स्वीकृत की गई धनराशि रू०	जनपद स्तर पर अनकमिटेड/अनस्पेन्ट अवशेष धनराशि से समायोजित की जाने वाली धनराशि (संलग्न फांट के अनुसार)	जनपद स्तर पर अनकमिटेड/अनस्पेन्ट पर्याप्त धनराशि न होने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति से अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्न फांट के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	M I S S I O N F L E X I P O O L	Dr. Rajesh Jha (GM.CP) 8005192516	ASHA VITT Fundtr. To 72- DHS — (B.1.1.3.6.1,B.16.2.5.5, B.1.1.3.6.4,B.14.12,B1. 1.3.7.2,B.1.1.2.1,B.1.1. 5.4)	20.02.201 5	1807763625.00	206279052.00	1601484573.00

मिशन निदेशक/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रेषित विस्तृत व्यय संबंधी दिशा निर्देशों अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि—

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्तम्भ सं० 2 में अंकित एक पूल की धनराशि किसी अन्य पूल में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Officer (MIS)  
Baxa  
19.03.2015

3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैंशबुक, बैंक बुक, लेजर, बैंक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही सत्यापन भी नियमित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना भी सुनिश्चित करें।
10. मिशन निदेशक के पत्र सं0 SPMU/NRHM/ACCOUNT/2014-15/85/4199-75 दिनांक 22.12.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(गुरुजीत सिंह कल्सी)  
वित्त नियंत्रक-एन0एच0एम0

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2014-15/85/5798-75-8 दिनांक।  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0एच0एम के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके प्रस्ताव पर प्रेषित की गयी धनराशियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण स्वयं अपने स्तर पर भी करने का कष्ट करें।
6. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

(गुरुजीत सिंह कल्सी)  
वित्त नियंत्रक-एन0एच0एम0